



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1946 (श०)

(सं० पटना 165) पटना, मंगलवार, 4 मार्च 2025

सं० टी-02/नामां०(G)-01/2025—699

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

28 फरवरी 2025

विषय:— राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन प्रतिशत में वृद्धि हेतु **Spot Admission** करने के संबंध में।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यद, आई०ए०एस० संघ भवन, बिहार, पटना द्वारा ITICAT के माध्यम से की जाती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा ITICAT के आधार पर पर्यद कार्यालय द्वारा द्वारा तीन चरणों में (दो चरण ऑनलाईन एवं तृतीय चरण ऑफलाईन) कॉउंसेलिंग एवं नामांकन कार्य किया जाता है। तीन चरण की कॉउंसेलिंग के उपरान्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सामान्यतः प्रत्येक वर्ष लगभग 15 से 20 प्रतिशत रिक्तियाँ रह जाती है, जिससे संस्थान के आधारभूत संरचना का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है।

2. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन प्रतिशत में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा तृतीय चरण की **Offline Mop up Counselling** के उपरान्त एवं **DGT** भारत सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित नामांकन की अंतिम तिथि के पूर्व **Spot Admission** कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. **Spot Admission** के लिए **SOP/** कार्य योजना निम्नलिखित है—

- **Offline Mop up** कॉउंसेलिंग के उपरान्त एवं **DGT** भारत सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित नामांकन की अंतिम तिथि के पूर्व **Spot Admission** किया जायेगा।
- **BCECE Board** द्वारा **Offline Mop up** कॉउंसेलिंग के उपरान्त जिलावार/ संस्थानवार/ व्यवसायवार/ आरक्षण कोटिवार रिक्त बची सीटों की विवरणी उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही ITICAT में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों का जिलावार मेधा क्रमांक उपलब्ध कराया जायेगा।
- **Spot Admission** में जिला के बंधेज को तृतीय चरण की **Offline Mop up** कॉउंसेलिंग की भाँति यथावत् रखा जायेगा।

- **Offline Mop up** कॉउंसेलिंग में नामांकन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त रिक्त बची सीटों पर **Spot Admission** हेतु संबंधित संस्थान के प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य द्वारा अलग-अलग विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।
 - उक्त विज्ञापन में संस्थानवार/ व्यवसायवार/ आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की विवरणी प्रदर्शित करते हुए **ITICAT** में सम्मिलित सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी, जो पूर्व में ऑनलाईन/ऑफलाईन कॉउंसेलिंग के आधार पर किसी संस्थान में नामांकित नहीं हों, से **Spot Admission** हेतु **Offline** आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। विज्ञापन में **Spot Admission** हेतु **Offline** आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि एवं समय तथा **Document Verification** एवं नामांकन की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे।
 - **Spot Admission** हेतु **Offline** आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन को एक अलग पंजी में प्राप्ति की तिथि एवं समय के साथ संधारित करेंगे।
 - प्राप्त सभी आवेदनों को **BCECE Board** द्वारा उपलब्ध कराये गये जिलावार अनारक्षित मेधा क्रमांक (**UR Merit**) के अनुसार व्यवस्थित करते हुए विवरणी तैयार करेंगे।
 - तदोपरान्त **Document Verification** एवं नामांकन हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों के जिलावार अनारक्षित मेधा क्रमांक (**UR Merit**) के आधार पर रिक्त बची सीटों पर योग्य एवं उपस्थित अभ्यर्थियों को उनके मेधा एवं पसंद (**Choice**) के अनुसार सीट आवंटित कर **Spot Admission** किया जायेगा।
 - **Spot Admission** हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का पूर्व चरण के कॉउंसेलिंग की भाँति पर्वद कार्यालय द्वारा प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा **Biometric** सत्यापन किया जायेगा।
 - अभ्यर्थियों द्वारा चयनित व्यवसाय के रिक्तियों में सर्वप्रथम अनारक्षित सीट (**UR**) को भरा जायेगा। तदोपरान्त आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके आरक्षण कोटि में उपलब्ध सीटों के आलोक में सीट आवंटित कर **Spot Admission** किया जायेगा। किसी व्यवसाय/ आरक्षण कोटि में सीट उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में नामांकन नहीं होगा।
4. उपर्युक्त प्रावधान सत्र 2025-26 से लागू होगा।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- आदेश—**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 165-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>